



मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, रतलाम  
दिनांक /11/2020

संख्या- ईटी/839/एमएसीपीएस भाग-02

प्रति,

मोहम्मद अयुब शेख,

सीटीएनएल, रतलाम

विषय- आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमसीपीएस) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन अराजपत्रित कर्मचारी- परिचालन विभाग रतलाम मण्डल।

सन्दर्भ- 01. रेलवे बोर्ड का पत्रसं.- PC-V/2018/MACP/I(SM) दिनांक 25.02.2020 (आरबीई नं.-26/2020)

02. आपका आवेदन दिनांक 10.08.2020 , 18.08.2020 एवं 19.10.2020

03. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.07.2020 एवं 04.08.2020

\*\*\*\*

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके सन्दर्भित आवेदनों का अवलोकन करने एवं सेवापुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि आपको भर्ती दिनांक से दिये गये पदोन्नति एवं एमएसीपीएस का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	सेवा विवरण	दिनांक	वेतनमान	टिप्पणी
1.	प्रारम्भिक भर्ती गुड्स गार्ड	12.01.1990	1200-2040/लेवल-5	सीधी भर्ती
2.	प्रथम एसीपी	08.08.2002	1400-2300/लेवल-6	प्रथम एसीपी
3.	पदोन्नति Dy TNL	11.03.2008	6500-10500/लेवल-7	पदोन्नति
4.	वित्तीय उन्नयन	11.03.2018	4800/लेवल-8	द्वितीय वित्तीय उन्नयन

रेलवे बोर्ड के सन्दर्भित पत्र दिनांक 25.02.2020 (आरबीई नं.-26/2020) के निर्देशानुसार स्टेशनमास्टर (लेवल-5) में भर्ती हुए कर्मचारियों की स्टेशन मास्टर (लेवल-6) में दी गई पदोन्नति को एमएसीपीएस हेतु अनदेखा किया जाना है, तत्पश्चात 03 वित्तीय उन्नयन/पदोन्नति प्रदान की जानी है।

उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आपकी भर्ती गुड्स गार्ड (लेवल-5) के पद पर हुई है, तत्पश्चात आपको (लेवल-6) में एसीपी, (लेवल-7) में पदोन्नति, एवं (लेवल-8) का वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है।

रेलवे बोर्ड के सन्दर्भित पत्र दिनांक 25.02.2020 के निर्देशानुसार आपको (लेवल-9) ग्रेडपे-5400 एमएसीपीएस की पात्रता नहीं बनती है।

यह आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

(दीपक परमार)

मण्डल कार्मिक अधिकारी  
कृते-वरि.मं.का.अधि. रतलाम